

Done
17/05/2023



Released
02/8/23
Executive Engineer
W.D. Works Division
Darbhanga-1
Pledge to E & R W.D. Works Division
Darbhanga-1
Raj...

1. Rate of Interest is in percentages per annum
2. Automatic Renewal Clause
 - a) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
 - b) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. Affidavit (Form 15G/15H) if applicable has to be submitted by Resident individuals for each financial year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
6. Premature Withdrawal Interest
 - a) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty rate. The interest earned till the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
 - b) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty rate. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, withdrawal notice of minimum 60 days prior to withdrawal of deposit - to be given to Bank.
7. In case of **NON-CALIBRABLE DEPOSIT** - Premature withdrawal not allowed.

Please note: this is a system generated advice and does not require any signature

Please refer to E.E RWD WORKS Division
 21011 3011 East -1.
 Muzar
 04012 3011
 04012 3011
 04012 3011

HACM

Pledged to E.C. RWD WORKS

Darbhanga - 1

Released

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1



13/10/23

JAI SHANKAR KUMAR

MOH. MAHMADDA
DIST. SAMASTIPUR
844019
INDIA

PO. PS. PUSHA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 78960300005669
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR2909230431
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No BO0V04302
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 78960200000336
शाखा का नाम/Branch Name MUZZAFARPUR

योजना / Scheme BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT
नामनिर्देशन / Nomination N
नामनिर्देशन क्रमांक / Nomination Registration No.
पैन नंबर / PAN No. AAFFJ8194B
परिचालन पद्धति / Mode of Operation AUTHORISED SIGNATORY
लियन चिह्नित / Lien Marked N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
800000	29-09-2023	7.25	0 Months 399 Days	01-11-2024	865215

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में सांकेतिक है।
2. स्वतः नवीकरण कल्पित।
3. यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष के ब्याज दर से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
4. कोई निदेशन न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
5. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।
6. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इनका निवेश सीमा पूरा होने से पूर्व एक मूल्य 15 जी/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा नोत पर कर कटौती की जाएगी।
7. फॉर्म 15 जी केवल उचित नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।
8. परिपक्वता आगमन तक।
9. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समग्रपूर्ण बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि के उतरे होने की तिथि पर लागू कार्टेड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
10. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समग्रपूर्ण बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि पर बैंक में रखे जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्टेड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समग्रपूर्ण आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
11. पर प्रत्येक जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।
12. Rate of Interest is in percentage per annum.
13. Automatic Renewal Clause.
14. i) For Deposits issued for a period of 1 year and above Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
15. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
16. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
17. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident holders for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, taking which TDS will be deducted.
18. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
19. Premature Withdrawal Clause.
20. Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
21. Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
22. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature.

Released

Pledged to E.C. RWD WORKS

Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division

Muzaffarpur

Samastipur

Pledge to E.E RWD Works Division
Dambhaya-1

Rani
13/10/24

JAI SHANKAR KUMAR

MOH.MAHMADDA PO.PS.PUSHA
DIST. SAMASTIPUR
844010
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 78960300005959
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0801243732
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No BO0V04302
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 78960400000085
शाखा का नाम/Branch Name MUZZAFARPUR



योजना / Scheme BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT
नामांकन / Nomination N
नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.
पैन नंबर / PAN No. AAFFJ8194B
परिचालन पद्धति / Mode of
Operation PROPRIETOR
लियन चिह्नित / Lien Marked

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
450000	08-01-2024	7.15	0 Months 399 Days	10-02-2025	486171

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है.
- स्वतः नवीकरण क्लॉज़
- यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.
- कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.
- फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है.
- निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (जदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए. अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.
- फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा.
- परिपक्वता आहरण क्लॉज़
- रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व वंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा.
- रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व वंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए.
- मेर प्रतिवेद्य जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण को अनुमति नहीं है

- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident Individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature.



E.E RWD Works Division, Pakudhaya
Arjun Kumar
Murali Kumar